



HAMIRPUR POLICE



दिनांक-01/01/2020

थाना जलालपुर

लूट की घटना का अनावरण, 07 अभियुक्त गिरफ्तार 1,90,000/- बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 03/10/2020 को वादी अवधेश कुमार तिवारी पुत्र श्री राम अवतार तिवारी निवासी कस्बा व थाना कुरारा द्वारा थाना जलालपुर पर उपस्थित होकर सूचना दी गयी कि शाम करीब 6 बजे एक डीसीएस गाड़ी से राठ गल्ला मंडी से कुरारा जाते समय ग्राम मसीदन अंतर्गत थाना जलालपुर के पास से एक स्कोर्पियो गाड़ी में सवार 04 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा वादी से 2,75,000/- रुपये व ड्राइवर से 50,000/- रुपये व 01 छोटा सेमसंग मोबाइल की लूट की गयी है, इस सूचना पर थाना जलालपुर पर मु0अ0स0-165/20 धारा-394 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा क्षेत्राधिकारी सरीला/प्रभारी निरीक्षक जलालपुर/ प्रभारी स्वाट/प्रभारी सर्विलांस टीम को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। दिनांक 31/12/2020 को प्रभारी निरीक्षक जलालपुर एवं स्वाट टीम हमीरपुर की संयुक्त कार्यवाही में घटना का अनावरण करते हुए तीन अभियुक्तों 1)शिवम उर्फ छोटू, 2)दिलीप अहिरवार, 3)रोहित कुमार श्रीवास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जुर्म स्वीकारते हुए बताया कि हम तीनों ने अपने पाँच अन्य साथियों के सहयोग से लूट की घटना की थी। ग्राम मसीदन पुलिया थाना जलालपुर के पास में स्कोर्पियो से डीसीएम गाड़ी रोक कर उसमें बन्टी, दिलीप, शिवम व मुमताज ने लूट की घटना किया था। डीसीएम गाड़ी में रुपये ले जाने की सूचना हमको विनय व नत्थू ने दी थी तथा रोहित व फरीद ने भी इस घटना की योजना में सहयोग किया था। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में सम्मिलित चार अन्य अभियुक्तों 4)मुमताज, 5)नत्थू, 6)विनय व 7)फरीद को भी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। घटना से संबंधित एक अन्य अभियुक्त 8)बन्टी एक पूर्व में लूट की घटना के संबंध में जिला कारागार महोबा में निरुद्ध है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 1,90,000/- रुपये, 01 लूटा हुआ सेमसंग मोबाइल, 02 अदद तमंचा 315 बोर, 04 अदद जिंदा कारतूस व लूट में प्रयुक्त स्कोर्पियो गाड़ी बरामद की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1)दिलीप अहिरवार पुत्र रामाधीन निवासी लोधियात पुरा कस्बा व थाना राठ
- 2)शिवम सिंह उर्फ छोटू पुत्र जंगजीत सिंह निवासी हांसा थाना कदौरा जिला जलौन
- 3)रोहित कुमार श्रीवास पुत्र सिद्ध गोपाल निवासी बबीना थाना कदौरा जिला जलौन
- 4)मुमताज मोहम्मद पुत्र रहीम बक्स नि0ग्रा0 कुरा थाना राठ जिला हमीरपुर
- 5)फरीद पुत्र वफाती निवासी करमेर थाना आटा जिला जालौन
- 6)नत्थू पुत्र रामस्वरूप कटेरिया निवासी वीरी थाना रसूलाबाद जिला कानपुर देहात
- 7)विनय पुत्र पंचम कटेरिया निवासी छोटी रजऊ थाना रसूलाबाद कानपुर देहात

बरामद माल का विवरण:-

- 1.माल मशरूका रुपया एक लाख नब्बे हजार
2. एक अदद लूटा हुआ मोबाइल (सैमसंग कम्पनी)
- 3.दो अदद तमंचा 315 बोर
- 4.चार अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा नाजायज
- 5.लूट में प्रयुक्त एक अदद स्कार्पियो गाड़ी

इस संदर्भ में पंजीकृत मुकदमा:-

- 1.मु0अ0स0 165/20 धारा 394/411/120ब भा0द0स0
- 2.मु0अ0स0 226/20 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट बनाम शिवम सिंह उर्फ छोटू
- 3.मु0अ0स0 227/20 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट बनाम दिलीप अहिरवार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्र0नि0 विनोद कुमार
- 2.निरीक्षक बृजेश चंद्र यादव प्रभारी स्वाट टीम
- 3.उ0नि0 योगेन्द्र बहादुर सिंह
- 4.उ0नि0 अनुपम यादव प्रभारी सर्विलांस सेल
- 5.का0 कप्तान सिंह
- 6.का0 संतोष कुमार
- 7.का रजत कुमार
- 8.का0 कमल कान्त
- 9.का0 अतुल तिवारी

